



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 आश्विन 1937 (श10)

(सं0 पटना 1134) पटना, वृहस्पतिवार, 1 अक्टूबर 2015

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

19 अगस्त 2015

सं0 22/नि0सि0(सिवान)-11-21/2011/1853—श्री रबीन्द्र कुमार जायसवाल, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, ठकराहा, शिविर— गोपालगंज के पद पर पदस्थापित थे, तब बाढ़, 2011 के पूर्व गोपालगंज जिलान्तर्गत सारण तटबंध के 117.05 कि0 मी0 से 152.00 कि0 मी0 के बीच गंडक नदी में निर्माणाधीन पायलट चैनल में बरती गई अनियमितता की जाँच उड़नदस्ता अंचल, जल संसाधन विभाग, पटना द्वारा की गई, जिसके आलोक में प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही चलाने एवं मामले की विस्तृत जाँच मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग द्वारा अलग से कराने का निर्णय लिया गया।

उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 1346 दिनांक 03.11.11 द्वारा निलंबित किया गया एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1435 दिनांक 22.11.11 द्वारा निम्नांकित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया:-

बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, ठकराहा शिविर—गोपालगंज की पदस्थापन अवधि में सारण तटबंध के 117.05 कि0 मी0 से 124.25 कि0 मी0 (सिकटिया—बधवारा गाँव) के बीच पायलट चैनल का निर्माण कार्य स्वीकृत प्राक्कलन एवं एकरारनामा में प्रावधानित कार्यमद "Removal of silt/shoal/earth by dredging from channel including fixing of pipelines. Floaters & floating pipelines for disposing of water slurry consisting of silt and sand etc. including leveling our dredged materials in the disposal area. It includes the cost of labour, material, cost of consumable, POL, cost of spare parts (minor & major repairs) & accessories required to keep dredger in smooth running condition even after completion of job. Maintenance of dredger T&P etc. Complete as directed by EIC including earth work in excavation by means of earth moving machines including transportation with all lead and lift for disposal beyond 1 k.m. The job includes cleaning of sites, all site surveys for actual assessment of quantum of work, methodology and type of dredger to be employed and Maintenance dredging for one year. " के अनुरूप कार्य कराया जाना था परन्तु आपके द्वारा कार्यमद से हटकर केवल राजस्थानी ट्रैक्टर से Required bed level से उपर का कार्य कराया गया जिसका दर

59.80 प्रति घनमीटर है। संपादित कार्य का भुगतान एकरारित कार्यमद के अनुरूप एकरारित दर रू0 202.00 प्रति घनमीटर से किया गया जबकि कार्यस्थल पर ड्रेजिंग मशीन आया ही नहीं। इस प्रकार कार्यमद के अनुरूप कार्य कराये बगैर आपके द्वारा प्रथम विपत्र के माध्यम से संपादित कार्य 49975.35 घनमीटर के विरुद्ध रू0 7106494.00 का अनियमित भुगतान किया गया है। जिसके लिए आप प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये हैं।

संचालित विभागीय कार्यवाही के जांच प्रतिवेदन के उपरांत तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसकी समीक्षोपरांत तकनीकी परीक्षक कोषांग के जांच प्रतिवेदन में निविदा शर्तों के विपरीत कार्यमद का गठन करना तथा बिहार लोक निर्माण संहिता 2005 के नियम कंडिका 171 के विपरीत कार्यवाई करने तथा बिना ड्रेजिंग कार्य कराये ही समेकित कार्यमद दर से अनियमित भुगतान के लिए दोषी मानते हुए निगरानी विभाग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक 1369 दिनांक 16.09.14 द्वारा श्री जायसवाल से द्वितीय कारण पृच्छा की गई।

प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब तथा संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के सम्यक समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त श्री जायसवाल, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता के विरुद्ध बिना ड्रेजिंग कार्य कराये समेकित कार्यमद दर पर अनियमित भुगतान करने के आरोप को एक सीमा तक प्रमाणित पाया गया। प्रमाणित आरोपों के लिए श्री रबीन्द्र कुमार जायसवाल, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, ठकराहा को सक्षम प्राधिकार द्वारा निलंबन से मुक्त करते हुए निम्न दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया:—

(क) “कालमान वेतन के पांच वेतन प्रक्रम नीचे पांच वर्षों के लिए अवनति”

(ख) निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं, परन्तु उक्त अवधि की गणना पेंशन प्रयोजनार्थ की जायेगी।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री रबीन्द्र कुमार जायसवाल, कार्यपालक अभियंता को विभागीय अधिसूचना संख्या 536 दिनांक 27.02.15 द्वारा निलंबन मुक्त किया जा चुका है। एतद द्वारा सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री रबीन्द्र कुमार जायसवाल, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, ठकराहा, शिविर-गोपालगंज को निम्न दंड अधिरोपित करते हुए संसूचित किया जाता है—

(क) “कालमान वेतन के पांच वेतन प्रक्रम नीचे पांच वर्षों के लिए अवनति”

(ख) निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं, परन्तु उक्त अवधि की गणना पेंशन प्रयोजनार्थ की जायेगी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
गजानन मिश्र,  
विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1134-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>